## राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान

## NATIONAL INSTITUTE OF ANIMAL NUTRITION & PHYSIOLOGY (ICAR) आडुगोडी /ADUGODI, बेंगलूर / BANGALORE - 560 030

## दौरा प्रस्ताव / PROPOSAL FOR TOUR

| (यदि अग्रिम लेना है तो , | दो प्रतियों में प्रस्तुत करें /To be submi | tted in duplicate, in case involving drawal of advance) |
|--------------------------|--|---|
| 1. नाम /Name             | :  | 2. पदनाम /Designation:                                  |
| 3. वेतन रु /Pay Rs.      | :  | 4. विभाग /Division:                                     |

| प्रस्थान /Departue |                       | आगमन /Arrival |             | यात्रा वाहन/ |       |               |
|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|-------|---------------|
| दिनांक/Date        | समय/Time              | से/From       | दिनांक/Date | समय/Time     | तक/To | दूरी / किराया |
|                    |                       |               |             |              |       | Mode of       |
|                    |                       |               |             |              |       | Travel /      |
|                    |                       |               |             |              |       | Distance/Fare |
|                    |                       |               |             |              |       |               |
|                    |                       |               |             |              |       |               |
|                    |                       |               |             |              |       |               |
|                    |                       |               |             |              |       |               |
|                    |                       |               |             |              |       |               |
|                    |                       |               |             |              |       |               |
|                    |                       |               |             |              |       |               |
|                    |                       |               |             |              |       |               |
|                    |                       |               |             |              |       |               |
|                    |                       |               |             |              |       |               |
|                    |                       |               |             |              |       |               |
| गंतव्य स्थान पर नि | नेवास/No.of ${ m d}a$ | iys halt at c | outstation: |              |       |               |
| इस साल का कुल      | योग/Progressi         | ve total in   | the year:   |              |       |               |
| उददेश्य/Purno      | se :                  |               |             |              |       |               |
| Tive of the same   | ·                     |               |             |              |       |               |

| इस साल का कुल योग/Progressive total in the year: |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| उद्देश्य/Purpose :                               |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| <br>यात्रा पूरी करने के लिए अग्रिम राशि _        | (  |  |  |  |  |  |
| रुपये) कृ  | पया स्वीकृत एवं उपरोक्त दौरे की अनुमति प्रदान करें . |  |  |  |  |  |
| For undertaking journey,                         | an advance of Rs                                     |  |  |  |  |  |
| (Rupees  | ) may also kindly be                                 |  |  |  |  |  |
| sanctioned and tour as above ap                  | oproved.   |  |  |  |  |  |
| विभाग / अनुभागाध्यक्ष के सिफारिश/                | अधिकारी के हस्ताक्षर/Signature of the Officer        |  |  |  |  |  |
| Recommendation of Head of the Div./Section       |  |  |  |  |  |  |
|  | विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर/Signature of Head Divisior |  |  |  |  |  |

सक्षम प्राधिकारी का आदेश/

Order of the Competent Authority:

निदेशक /DIRECTOR

## सी एवं बी अनुभाग के प्रयोगार्थ / FOR USE IN C & B SECTION

| बिल सं/Bill No:                                | _                                    |  |
|--|--------------------------------------|--|
| अभियोज्य मुख्य /Chargeable Head:               |                                      |  |
|  |                                      |  |
|  |                                      |  |
| आलेख एवं वितरण                                 | अधिकारी/Drawing & Disbursing Officer |  |
| लेखा परीक्षा अनुभाग के प्रयोगार्थ $/\ { m Fe}$ | OR USE IN AUDIT SECTION              |  |
| चैक सं/Paid vide Cheque No                     | द्वारा भुगतान दिनांक/Date:           |  |
|  |                                      |  |
|  | हस्ताक्षर /Signature:                |  |